



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ, 1941 (श०)

संख्या- 511 राँची, शुक्रवार,

5 जुलाई, 2019 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

15 मार्च 2019

संख्या-03नि0प0-20/2016 रा0नि0आ0 303-- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्व्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, राँची के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	राँची	XX/राँची-(1)	भरत रजक, ग्रा0+पं0-खलारी, पो0-गुलजार बाग (खलारी), प्रखण्ड-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XX/राँची-(1)	रंजन रवि कुमार, ग्रा0+पं0-हुटाप, पो0-खलारी, प्रखण्ड-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XX/राँची-(1)	अशोक राम, ग्राम-बुकबुका, पो0-खलारी, प्रखण्ड-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XX/राँची-(2)	आनन्द कुमार झा, ग्रा0+पं0-चुरी पश्चिमी, पो0-बी टाइप डकरा, प्रखण्ड-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XX/राँची-(2)	सबीर अंसारी, ग्रा0-चूरीडकरा, पं0-चुरी पश्चिमी, पो0-चुरी डकरा, प्रखण्ड-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XX/राँची-(2)	सत्यनारायण यादव, प्र0+पं0-खलारी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XX/राँची-(3)	सिता देवी, ग्रा0+पं0-ओझा साड़म, प्रखण्ड-बुढमू, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XX/राँची-(4)	नीलम देवी, ग्रा0-कोराबार, पं0-हेसलपीड़ी, प्रखण्ड-बुढमू, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		XX/राँची-(4)	सुनीता देवी, ग्रा0+पं0-गिंजोटाकुर गांव, प्रखण्ड-बुढमू, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10		XX/राँची-(4)	सोनम देवी, ग्रा0+पं0-चेनगढ़ा, प्र0-बुढमू, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11		XX/राँची-(5)	अंजु देवी, पं0-रघुनाथपुर, ग्रा0+पो0-चम्पाडीह, प्रखण्ड-चान्हो, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12		XX/राँची-(5)	सोनी प्रवीण, ग्रा0+पो0-मसमानी, पं0-चटवल, प्रखण्ड-चान्हो, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

13	XX/राँची-(7)	सेरोफिना मिंज, ग्रा0-सोसई, पं0-कंजिया, पो0-मांडर, प्रखण्ड-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XX/राँची-(8)	कंचन माला बाड़ा, ग्रा0-हेसमी, पं0-तिगोई अम्बाटोली, पो0-सोसई आश्रम, प्रखण्ड-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XX/राँची-(8)	क्लारा कुजूर, ग्रा0-हेसमी, पं0-तिगोई अम्बाटोली, पो0-सोसई आश्रम, प्रखण्ड-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XX/राँची-(8)	सुचिता एक्का, ग्रा0-चुन्द, पं0-ब्राम्बे, पो0-ब्राम्बे, प्रखण्ड-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XX/राँची-(8)	संगीता खलखो, ग्रा0-कटचांची, पो0+पं0-माण्डर, प्रखण्ड-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XX/राँची-(9)	सुरजी उराईन, ग्रा0-परीयागो, पो0+पं0-टागरवसूली, प्र0-माण्डर, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	XX/राँची-(11)	ओलिवर मिंज, ग्रा0-मकुंदा, पं0+पो0-करकरी, प्रखण्ड-बेड़ो, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	XX/राँची-(11)	जीवन उराँव, ग्रा0+पो0-तुको, पं0-दिधिया, प्रखण्ड-बेड़ो, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XX/राँची-(12)	जॉर्ज एक्का, ग्रा0+पो0-सापुकेरा, प्रखण्ड-लापुंग, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XX/राँची-(12)	धनिया मुण्डा, ग्रा0+पो0-सापुकेरा, प्रखण्ड-लापुंग, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	XX/राँची-(12)	मरसल मुण्डा, ग्रा0+पं0-महुआँव, पो0-बुढ़नी, प्रखण्ड-लापुंग, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	XX/राँची-(14)	बजरंग महतो, ग्रा0+पं0+पो0-नारो, प्रखण्ड-नगड़ी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	XX/राँची-(14)	मनोज कुमार, ग्रा0+पं0-चिपरा, पो0-तुसमु, प्रखण्ड-नगड़ी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	XX/राँची-(14)	सुरेन्द्र महतो, ग्रा0+पं0-लालगुटुवा, पो0-कूटे, प्रखण्ड-नगड़ी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	XX/राँची-(15)	जितेश्वर मुण्डा, ग्रा0-काठीटांड, पं0-रातु पुर्वी, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	XX/राँची-(15)	मिनी देवी, ग्रा0-काठीटांड रानी बगीचा, पं0-रातु पुर्वी, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019

29	XX/राँची-(15)	राजेन्द्र खलखो, ग्रा0-रातु, पं0-रातु पश्चिमी, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	XX/राँची-(16)	अख्तर साह, ग्रा0+पं0-फुटकलटोली, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	XX/राँची-(16)	अरविन्द तिकी, ग्रा0-कमड़े, पं0-कमड़े, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	XX/राँची-(16)	कमरूल हक, ग्रा0+पं0-फुटकलटोली, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	XX/राँची-(16)	कलीम अंसारी, ग्रा0+पं0-बिजुलिया, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	XX/राँची-(16)	चारो उराँव, ग्रा0+पं0-बाजपुर, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	XX/राँची-(16)	परमेश्वर महतो, ग्रा0-सिमलिया, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	XX/राँची-(16)	बलदेव महतो, ग्रा0-पण्डरा, पं0-बाजपुर, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	XX/राँची-(16)	रमेश महतो, ग्रा0-गुडू, पं0-गुडू, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	XX/राँची-(16)	राजेश लकड़ा, ग्रा0+पं0-कमड़े, प्रखण्ड-रातु, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	XX/राँची-(17)	तस्लीम अंसारी, ग्रा0+पं0+पो0-उपरकोनकी, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	XX/राँची-(17)	मनोज महतो, ग्रा0+पं0-मनातु, पो0-चेड़ी, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
41	XX/राँची-(17)	रिजवान अहमद, ग्रा0+पं0-उपरकोनकी, पो0-पुसु, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42	XX/राँची-(17)	समसुल हक, पं0-काटमकुली, प्र0-काँके, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	XX/राँची-(17)	अशोक कुमार महतो, पं0-सुकुरहुटु उतरी, प्र0-काँके, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	XX/राँची-(18)	सफदर सुलतान अंसारी, पं0-कोकदोरो, प्र0-काँके, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

45	XX/राँची-(19)	असरफ अली, ग्रा0+पं0-काँके उत्तरी, पो0-पतराटोली, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46	XX/राँची-(19)	निरंजन कुमार, ग्रा0+पं0-काँके पश्चिम, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
47	XX/राँची-(19)	निरंजन कुमार, ग्रा0+पं0+पो0-अरसण्डे, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	XX/राँची-(19)	मनिक तिर्की, ग्रा0+पं0-काँके उत्तरी, पो0-सेमरटोली, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	XX/राँची-(19)	रवि लोहरा, ग्रा0+पं0+पो0-होचर, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
50	XX/राँची-(19)	मो0 शमीम, ग्रा0+पं0-काँके दक्षिणी, पो0-मिल्लत कॉलोनी, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51	XX/राँची-(19)	मो0 सिकन्दर, ग्रा0+पं0-काँके दक्षिणी, पो0-चुड़ीटोला, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
52	XX/राँची-(19)	संजर, ग्रा0+पं0-काँके दक्षिणी, पो0-मिल्लत कॉलोनी, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
53	XX/राँची-(19)	अभिषेक राज हेरेंज, ग्रा0-महुवाटोली, प्र0-काँके, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
54	XX/राँची-(20)	उषा मिश्रा, ग्रा0+पो0-डुमरदगा, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
55	XX/राँची-(20)	रेखा देवी, ग्रा0+पं0-केदल, पो0-केदल फुराटोली, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
56	XX/राँची-(20)	सुनिता देवी, ग्रा0-होम्बई, पं0-केदल, पो0-नेवरी विकास, सदर, प्रखण्ड-काँके, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
57	XX/राँची-(22)	अनीसा प्रवीन, ग्रा0पं0-कुटे, पो0-कुटे, प्रखण्ड-ओरमांझी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
58	XX/राँची-(22)	मानती देवी, ग्रा0पं0-ईचादाग, पो0-जिदू, प्रखण्ड-ओरमांझी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
59	XX/राँची-(22)	रेहाना खातुन, ग्रा0पं0-कुटे, पो0-कुटे, प्रखण्ड-ओरमांझी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019

60	XX/राँची-(22)	साजदा खातुन, ग्रा0पं0-कुटे, पो0-कुटे, प्रखण्ड-ओरमांझी, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
61	XX/राँची-(22)	मीना देवी, पो0-चकला, प्र0-ओरमांझी, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
62	XX/राँची-(23)	सुमित्रा देवी, ग्रा0+पं0-चतरा, पो0-टाटीसिलवे, प्र0-अनगड़ा, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
63	XX/राँची-(24)	अल्पना देवी, ग्रा0पं0-कुच्चू, पो0-बदरी बुटगोड़ा, प्रखण्ड-अनगड़ा, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
64	XX/राँची-(24)	सरीता देवी, ग्रा0पं0+पो0-जोन्हा, प्रखण्ड-अनगड़ा, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
65	XX/राँची-(24)	सुषमा देवी, ग्रा0पं0-बीसा, पो0-बीसाडुमरटोली, प्रखण्ड-अनगड़ा, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
66	XX/राँची-(25)	अनिता शर्मा, ग्रा0पं0-टाटी पश्चिमी, पो0-आदर्शनगर, प्रखण्ड-नामकुम, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
67	XX/राँची-(25)	पुतुल झा, ग्रा0पं0+पो0-महिलौंग, प्रखण्ड-नामकुम, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
68	XX/राँची-(27)	भाविका सिंह मुण्डा, ग्रा0पं0-हुवांगहातु, पो0-हुवांगहातु, प्रखण्ड-नामकुम, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
69	XX/राँची-(27)	शंकर सिंह मुण्डा, ग्रा0पं0-हुवांगहातु, पो0-टैमारा, प्रखण्ड-नामकुम, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
70	XX/राँची-(27)	सुशील संगी, ग्रा0पं0-सोदाग, पो0-उपरडहु, प्रखण्ड-नामकुम, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
71	XX/राँची-(28)	मुक्ता होरो, ग्राम+पो0-पानसकम, प्रखण्ड-बुण्डू, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
72	XX/राँची-(28)	मुन्नी देवी, ग्राम+पो0-बुढाडीह, प्रखण्ड-बुण्डू, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
73	XX/राँची-(28)	सुचिता देवी, ग्राम+पो0-बुढाडीह, प्रखण्ड-बुण्डू, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
74	XX/राँची-(28)	आलोमनी देवी, ग्राम+पो0-घासियाबाँध, प्रखण्ड-बुण्डू, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
75	XX/राँची-(28)	शांति बरदियार, ग्राम+पो0-ताऊ, प्रखण्ड-बुण्डू, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
76	XX/राँची-(29)	कुमारी शिला महतो, ग्राम-लोवाहातु, पो0-कदमडीह, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

77	XX/राँची-(29)	विन्देश्वरी देवी, ग्राम+पो0-उराँवडीह, प्रखण्ड-राहे, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
78	XX/राँची-(31)	कर्ण महतो, ग्रा0पं0+पो0-बासारूली, प्रखण्ड-सिल्ली, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
79	XX/राँची-(31)	दीपक कुमार महतो, ग्रा0पं0+पो0-पिस्का, प्रखण्ड-सिल्ली, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
80	XX/राँची-(31)	शत्रुधन महतो, ग्रा0पं0-लुपुंग, पो0-सुलुंजुड़ी, प्रखण्ड-सिल्ली, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
81	XX/राँची-(31)	गोकुल महतो, पो0-सिंगपुर, प्र0-सिल्ली, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
82	XX/राँची-(33)	सुगीमनी देवी, ग्राम+पो0-सीतुमडीह, प्रखण्ड-सोनाहातु, राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
83	XX/राँची-(34)	द्रोपती देवी, ग्राम-बीनसाईडीह, पो0-जानुमपीड़ी, प्रखण्ड-तमाड़, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
84	XX/राँची-(35)	सरस्वती देवी, ग्राम+पो0-सरलोगा, प्रखण्ड-तमाड़, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
85	XX/राँची-(36)	पदम किशोर सिंह मुण्डा, ग्राम+पो0-चिरूडीह, प्रखण्ड-तमाड़, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
86	XX/राँची-(36)	अजय सिंह मुण्डा, ग्राम+पो0-हड़ामलोहर, प्रखण्ड-तमाड़, जिला-राँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
